



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 992 राँची, मंगलवार,

23 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 अक्टूबर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-94/2016-2577 (HRMS)-- श्री मनोरंजन कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ऊँटारी रोड, पलामू के विरुद्ध मनरेगा अंतर्गत डोभा निर्माण में शिथिलता बरतने तथा लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)1817, दिनांक 5 अगस्त, 2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7161, दिनांक 19 अगस्त, 2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इन्होंने पत्रांक-647(ii), दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11072, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-128/मनरेगा, दिनांक 18 फरवरी, 2017 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनको चेतावनी देने की अनुशंसा की गयी।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-9848, दिनांक 18 अगस्त, 2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की

माँग की गयी। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-848, दिनांक 9 अप्रैल, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, पलामू के मंतव्य पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण, उपायुक्त, पलामू के मंतव्य एवं इनके मंतव्य पर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री मनोरंजन कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ऊँटारी रोड, पलामू, सम्प्रति- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसई, गुमला को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी संसूचित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANORANJAN KUMAR 110030519610	श्री मनोरंजन कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ऊँटारी रोड, पलामू, को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी संसूचित किये जाने के संबंध में।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
